

25000 का ईनामीया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 20.05.2021 को उ0नि0 सुशील सिंह मय हमराह का0 अवधेश शुक्ला व का0 नितेश सिंह व का0 अशोक कुमार यादव के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारंटी में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास ने सूचना दी की एक व्यक्ति जनपद संतकबीरनगर की तरफ से अल्टो कार से अवैध तमंचा लेकर आ रहा है। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास कर मै उ0नि0 मय हमराहियान के मौके से प्रस्थान कर सीहापार फ्लाई ओवर पार कर कसरौल ग्राम के पास कट पर सन्तकबीरनगर से आने वाले हाई-वे मार्ग के किनारे पर खडे हो गये कुछ समय बाद जनपद सन्तकबीरनगर की तरफ एक अल्टो कार नं0 यूपी 53 एसी 9115 आयी जिसको हाथ से रोकने का इशारा किया गया तो कार मे बैठा एक व्यक्ति कार को रोककर गाडी से उतरकर भागने लगा। शक होने पर हमराहियान की मदद से 40-50 कदम की दूरी पर पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम कमलेश साहनी उर्फ कल्ले पुत्र बिंडल साहनी निवासी बोकटा थाना गीडा जनपद गोरखपुर जिसकी जामा तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध एक अदद देशी तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर प्राप्त हुआ। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 155/2021 धारा 3/25 /आर्म्स एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम -

कमलेश साहनी उर्फ कल्ले पुत्र बिंडल साहनी निवासी बोकटा थाना गीडा जनपद गोरखपुर

बरामदगी:-

एक अदद देशी अवैध तमंचा व 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद वाहन अल्टो कार संख्या UP 53 AC 9115 (सीज) 207 MV ACT

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक

सीहापार फ्लाई ओवर के पार कसरौल गांव के कट पर हाई-वे पर 20-05-2021

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उ0नि0 सुशील सिंह उपनिरीक्षक थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
- 2- का0 अवधेश शुक्ला थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
- 3- का0 नितेश सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
- 4- का0 अशोक कुमार यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर